



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1916]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2016/श्रावण 11, 1938

No. 1916]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2016/SRAVANA 11, 1938

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2016

का.आ. 2579(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र राज्य में उरण-चाकण-शिवगपुर एल.पी.जी. के परिवहन के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और, केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त भूमि में जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है और जिसमें पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर इसमें उपयोग के अधिकार करने या भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में उपजिलाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उरण-चाकण-शिवगपुर एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना, प्लॉट नं. 12, सेक्टर - 11, रोड नं. 16, नई पनवेल, जिला - रायगड, महाराष्ट्र - 410206 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

ftYkk & jk;xM

jkT; & egkj k"V

rgl hy dk uke	xke dk uke	l-u@x-u-	fgL l k-u-	{k=QG	g Vj	! kj	"x#eIVj
1	2	3	4	5	6	7	
कर्जत	मांडवणे	154	1A	00	34	00	
		1	1A	00	59	55	
			1B				
			1C				
			1D				
		46	2	00	05	50	
		46	3	00	08	71	
		45	2	00	07	15	
		45	4	00	05	55	
		44	1	00	16	72	

[फा. सं. आर.-31015/ 2 /2011-ओआर-II]

पवनकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2016

S.O. 2579(E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest to lay pipeline for the transportation of Petroleum Products “from Uran to Chakan - Shikrapur LPG Pipeline Project in the State of Maharashtra”, should be laid by the Hindustan Petroleum Corporation Limited ;

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty- one days from the date on which the copies of this notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein or laying of the pipeline under the land, to the Dy. Collector and Competent Authority, Uran-Chakan Shikrapur LPG Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Plot No.-12, Sector-11, Road No.-16, New Panvel-410206 Maharashtra.

SCHEDULE

District - Raigad				State - Maharashtra		
Name of Tehsil	Name of Village	Survey /Gat No.	Sub-Division No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6	7
Karjat	Mandavane	154	1A	00	34	00
		1	1A	00	59	55

			1B			
			1C			
			1D			
		46	2	00	05	50
		46	3	00	08	71
		45	2	00	07	15
		45	4	00	05	55
		44	1	00	16	72

[F. No. R-31015/ 2 /2011-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.